



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018, फोन- 0141-2552796

क्रमांक:-F29(25)/RSSB/Result /Patwar-2024/2025 /

दिनांक : यथा-हस्ताक्षरित

पटवार सीधी भर्ती 2025 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का वरीयतानुसार परिणाम

बोर्ड द्वारा, राजस्व मण्डल, अजमेर के लिये राजस्थान राजस्व (भू-प्रबन्ध एवं उपनिवेशन) अधीनस्थ सेवा नियम, 2019 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के तहत जारी विज्ञापन संख्या 02/2025 दिनांक 20.02.2025 तथा संशोधन दिनांक 20.06.2025 द्वारा पटवार पद हेतु गैर-अनुसूचित क्षेत्र के 3183 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 522 कुल 3705 विज्ञापित पदों के लिए परीक्षा का आयोजन दिनांक 17.08.2025 (Morning & Evening Shift) में किया गया था।

इसी क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन फार्म में दर्ज सूचनाओं एवं मुख्य परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की वरीयता सूची तैयार की गई है। गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र के लिए उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के वरीयता क्रम, रोल नम्बर एवं श्रेणी क्रमशः परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 पर संलग्न हैं।

- डिलीट प्रश्नों का विवरण:- परिशिष्ट 3 एवं परिशिष्ट 4 पर संलग्न है।

गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र के लिए क्रमशः परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 अनुसार उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से प्रवर्गानुसार विज्ञापित पदों के 02 गुणा अभ्यर्थियों को पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु विचारित (Shortlist) करने पर कट ऑफ मार्क्स निम्नानुसार होंगे-

गैर अनुसूचित क्षेत्र

CATEGORY	Cut_Off	REMARKS
GEN	GEN	249.238
	FEM	235.2158
	WID.	121.3939
	DIV.	201.4007
	EX	184.9111
GEN-EWS	GEN	241.5566
	FEM	225.8819
	WID.	104.9198
	DIV.	
	EX	138.6297
SC	GEN	226.7963
	FEM	204.9607
	WID.	72.145
	DIV.	165.2664
	EX	12.0149
ST	GEN	223.595
	FEM	203.3621
	WID.	63.4914
	DIV.	159.6081

	EX	34.6089	ALL
OBC	GEN	244.664	
	FEM	229.2246	
	WID.	104.9505	
	DIV.	188.7559	
	EX	166.7993	
MBC	GEN	236.6958	
	FEM	206.0761	
	WID.	96.4913	
	DIV.		
	EX	141.4716	
SAH	GEN	90.5457	
	FEM	80.8097	AGAINST WID & DIV
	WID.	NA	
	DIV.	NA	
	EX	NA	

LD/CP	162.4033	
SP	200.0665	

अनुसूचित क्षेत्र

CATEGORY	Cut_Off	REMARKS
GEN	GEN	219.5508
	FEM	206.7771
	WID.	53.5103
	DIV.	158.0343
	EX	56.2367
SC	GEN	198.6554
	FEM	188.1611
	WID.	32.2238
	DIV.	119.5407
	EX	NA
ST	GEN	170.5434
	FEM	156.2086
	WID.	5.5766
	DIV.	68.8274
	EX	NA
Total Selection		

LD/CP	110.4188	
SP	148.4889	
Total		

1. सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का आकलन बोर्ड द्वारा अनुमोदित निम्न सूत्र से किया गया है:-

$$\text{Total Marks of a Candidate} = \sum \text{of } [(RQ \times KF) - \left(\frac{WQ \times KF}{3}\right)] - \frac{\text{Maximum Marks} \times \text{Not Attempted Question}}{\text{Total No. Of Question} \times 3}$$

Σ = Sum of Marks
RQ = Right Questions
WQ = Wrong Questions

$$KF = \text{Key Factor} = \frac{\text{Maximum Marks}}{\text{Total No. of Questions}} \times \frac{\text{Total No. of Questions}}{\text{Number of Valid Questions}}$$

2. उक्त परीक्षा का आयोजन दिनांक 17.08.2025 (दो पारी) में होने के कारण नार्मलाइजेशन/स्केलिंग Equi-Percentile Formula (परिशिष्ट – 5) के अनुसार किया गया है।

नोट:-

- 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प/गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं करने के कारण 4479 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है।
- इस वरीयतानुसार परिणाम में जारी 02 गुणा कट ऑफ मार्क्स तक के अभ्यर्थियों हेतु दस्तावेज सत्यापन के लिये ऑनलाईन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फार्म (Scrutiny Form) भरने हेतु पोर्टल दिनांक 04.12.2025 से दिनांक 06.12.2025 तक खुला रहेगा। विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान ऑफलाईन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फार्म (Scrutiny Form) भी स्वीकार्य किये जायेंगे।
- किसी भी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने की जानकारी मिलने पर किसी भी समय उक्तानुसार जारी वरीयतानुसार परिणाम से बाहर किया जा सकेगा।
- नवीन व अद्यतन जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in का अवलोकन करें।

संलग्न:- परिशिष्ट-1 से परिशिष्ट-5

(प्रीति माथुर)
सचिव

क्रमांक:-F29(25)/RSSB/Result/Patwar-2025/2025

दिनांक : यथा-हस्ताक्षरित

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
2. निजी सहा0, माननीय समस्त सदस्य महोदय, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
3. निजी सहा0, सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
4. निजी सहा0, उपसचिव (परीक्षा/कार्मिक), राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
6. सलाहकार (परीक्षा/विधि/नियम/गोपनीय), राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
7. प्रभारी अधिकारी, आई.टी.सैल, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
8. भर्ती प्रभारी को लेख है कि संबंधित विभाग से समन्वय करते हुए सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के आगे की कार्यवाही संपादित करे।
9. रक्षित पत्रावली।

सचिव

परिशिष्ट-3 (डिलीट प्रश्नों का विवरण)

SPZ8_PATWAR 2025 (SHIFT-I)

Series	Set	GEN_SCI		RAJ_GK		GEN_ENG_HIN		REASONING		BASIC_COMP	
		Questions	Deleted Ques.	Questions	Deleted Ques.	Questions	Deleted Ques.	Questions	Deleted Ques.	Questions	Deleted Ques.
✱	SET -1	53, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 73, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 105, 107, 114, 119, 120	95	54, 56, 57, 63, 65, 69, 70, 71, 72, 74, 77, 78, 84, 85, 89, 90, 100, 101, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118	111	121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142	0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 49, 50, 51, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150	10, 30, 149	13, 14, 15, 23, 24, 28, 31, 33, 35, 36, 41, 44, 47, 48, 52	14, 36
✌	SET -2	83, 85, 86, 87, 90, 92, 93, 96, 101, 103, 104, 105, 107, 108, 112, 114, 115, 116, 118, 121, 123, 124, 125, 127, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 149	92	84, 88, 89, 91, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 106, 109, 110, 111, 113, 117, 119, 120, 122, 126, 128, 129, 131, 132, 138, 140, 146, 147, 150	113	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	0	23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 49, 50, 54, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82	24, 42, 75	43, 44, 45, 46, 48, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 64, 73	45, 51
★	SET -3	21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 59, 60, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 77, 78, 81, 83, 85, 86, 87, 88	60	24, 26, 28, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 43, 45, 49, 52, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 64, 65, 71, 72, 74, 75, 76, 79, 80, 82, 84	26	89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110	0	1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 149	18, 115, 129	4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 19, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 150	138, 142
✉	SET -4	34, 36, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 61, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 95, 99, 100	88	35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 55, 58, 60, 63, 64, 65, 66, 73, 74, 77, 78, 80, 83, 89, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 101	97	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30	0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 31, 32, 33, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 149	4, 109, 127	113, 114, 115, 117, 118, 128, 131, 133, 138, 140, 144, 146, 147, 148, 150	140, 144
✚	SET -5	73, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 94, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 134, 137, 138	91	72, 74, 78, 82, 84, 86, 89, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 104, 106, 110, 111, 116, 117, 119, 120, 121, 127, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 139	74	50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71	0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150	8, 19, 145	11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 26, 27, 28, 32, 33, 37, 39, 40	27, 28
👉	SET -6	4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 58, 60, 62, 63, 71	35	7, 8, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 29, 33, 37, 39, 43, 45, 53, 54, 56, 57, 59, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70	45	129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150	0	1, 2, 3, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 101, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 119, 123, 124, 125, 126, 127, 128	72, 88, 112	94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 105, 107, 114, 115, 118, 120, 121, 122	94, 105

RajKaj Ref No.:
19187803

eSign DSC

परिशिष्ट-3 (डिलीट प्रश्नों का विवरण)

SPZ8_PATWAR 2025 (SHIFT-I)

Series	Set	GEN_SCI		RAJ_GK		GEN_ENG_HIN		REASONING		BASIC_COMP	
		Questions	Deleted Ques.	Questions	Deleted Ques.	Questions	Deleted Ques.	Questions	Deleted Ques.	Questions	Deleted Ques.
+	SET -7	50, 51, 52, 53, 54, 59, 61, 62, 66, 67, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 94, 95, 97, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 113, 114, 117	102	55, 56, 57, 58, 60, 63, 64, 65, 68, 69, 71, 72, 79, 80, 81, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 99, 100, 103, 105, 110, 111, 112, 115, 116	103	118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139	0	2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150	8, 29, 147	1, 4, 7, 9, 11, 14, 15, 19, 20, 30, 32, 36, 38, 44, 48	44, 48
✶	SET -8	53, 58, 59, 62, 63, 64, 68, 70, 71, 73, 76, 77, 78, 81, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 96, 99, 100, 102, 103, 105, 106, 109, 110, 111, 114, 115, 117, 118, 119, 120	106	54, 55, 56, 57, 60, 61, 65, 66, 67, 69, 72, 74, 75, 79, 80, 82, 83, 85, 89, 94, 95, 97, 98, 101, 104, 107, 108, 112, 113, 116	104	121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142	0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150	7, 41, 145	12, 15, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 46, 48	29, 35
✶	SET -9	1, 2, 4, 5, 6, 8, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 67, 68	56	3, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 43, 46, 47, 48, 50, 52, 59, 60, 61, 65, 66	20	69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90	0	91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 127, 129, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 142, 144, 145, 148, 149, 150	95, 109, 145	115, 116, 117, 123, 126, 128, 130, 133, 138, 139, 140, 141, 143, 146, 147	138, 139
✎	SET -10	2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 62, 63, 68	38	1, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 34, 35, 36, 39, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 57, 60, 61, 64, 65, 66, 67	35	72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93	0	69, 70, 71, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 120, 122, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 138, 140, 141, 143, 144, 146, 148, 149	99, 108, 124	115, 116, 119, 121, 123, 125, 130, 133, 134, 136, 139, 142, 145, 147, 150	115, 121
⊙	SET -11	2, 3, 5, 7, 9, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 37, 39, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 97	86	1, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 40, 70, 71, 74, 79, 81, 82, 87, 88, 91, 94	30	129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150	0	41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 112, 113, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 124, 126, 128	49, 62, 99	54, 55, 58, 60, 64, 67, 109, 110, 111, 117, 118, 119, 123, 125, 127	118, 123

परिशिष्ट-3 (डिलीट प्रश्नों का विवरण)

SPZ8_PATWAR 2025 (SHIFT-I)											
Series	Set	GEN_SCI		RAJ_GK		GEN_ENG_HIN		REASONING		BASIC_COMP	
		Questions	Deleted Ques.	Questions	Deleted Ques.	Questions	Deleted Ques.	Questions	Deleted Ques.	Questions	Deleted Ques.
✱	SET -12	52, 53, 55, 58, 61, 62, 63, 64, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 96, 99, 100, 101, 102, 106, 108, 112, 113, 114, 115, 117	88	50, 51, 54, 56, 57, 59, 60, 65, 66, 67, 70, 76, 77, 78, 81, 83, 85, 90, 91, 95, 97, 98, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 116	90	118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139	0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 49, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150	8, 49, 141	18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 32, 34, 43, 44, 45, 47, 48	25, 45

परिशिष्ट-4 (डिलीट प्रश्नों का विवरण)

DQ69_PATWAR 2025 (SHIFT-II)

Series	Set	GK_GS		RAJ_GK		GEN_ENG_HIN		REASONING		BASIC_COMP	
		Questions	Deleted Ques.	Questions	Deleted Ques.	Questions	Deleted Ques.	Questions	Deleted Ques.	Questions	Deleted Ques.
⊙	SET -1	75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150	78	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126	88	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 36, 37, 38, 39, 40, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143	0	19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	66	52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117	0
✕	SET -2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126	121	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143	31	44, 45, 46, 47, 48, 59, 60, 61, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	0	19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 101, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135	129	102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150	0
+	SET -3	49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 144, 145	129	30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 110, 111, 112, 146, 147, 148, 149, 150	146	10, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 113, 114, 115, 116, 117, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143	0	1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	66	4, 5, 6, 7, 8, 9, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126	0
Ⓢ	SET -4	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143	14	19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 37, 38, 39, 40, 49, 50, 51, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 74	74	54, 55, 56, 57, 58, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135	0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150	122	30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119	0
↕	SET -5	19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134	22	75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 135, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150	135	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126	0	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143	10	48, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	0

RajKaj Ref No.:
19187803

eSign DSC

परिशिष्ट-4 (डिलीट प्रश्नों का विवरण)

DQ69_PATWAR 2025 (SHIFT-II)

Series	Set	GK_GS		RAJ_GK		GEN_ENG_HIN		REASONING		BASIC_COMP	
		Questions	Deleted Ques.	Questions	Deleted Ques.	Questions	Deleted Ques.	Questions	Deleted Ques.	Questions	Deleted Ques.
	SET -6	19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 49, 50, 51, 52, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	73	53, 54, 55, 56, 57, 58, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 101, 102, 103, 104, 105, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 144, 145	53	83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 106, 107, 108, 109, 120, 121, 146, 147, 148, 149, 150	0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143	35	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	0
	SET -7	19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135	50	1, 2, 3, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150	101	4, 5, 6, 7, 8, 9, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126	0	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 68, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 119, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143	41	59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74	0
	SET -8	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143	32	19, 20, 21, 22, 23, 24, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	41	25, 26, 27, 28, 29, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67	0	57, 58, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 120, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150	147	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 121, 122, 123, 124, 125, 126	0
	SET -9	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 94, 95, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143	137	59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 96, 97, 98, 99, 100, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135	96	19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 49, 50, 51, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82	0	1, 2, 3, 4, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150	89	5, 6, 7, 8, 9, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119	0

परिशिष्ट-4 (डिलीट प्रश्नों का विवरण)

DQ69_PATWAR 2025 (SHIFT-II)

Series	Set	GK_GS		RAJ_GK		GEN_ENG_HIN		REASONING		BASIC_COMP	
		Questions	Deleted Ques.	Questions	Deleted Ques.	Questions	Deleted Ques.	Questions	Deleted Ques.	Questions	Deleted Ques.
	SET -10	19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 127	64	75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135	128	1, 2, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150	0	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143	137	41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	0
	SET -11	19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	98	26, 27, 28, 29, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150	26	75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 120, 121, 122, 123, 124	0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 125, 126, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143	117	15, 16, 17, 18, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93	0
	SET -12	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	44	19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 66, 67, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88	66	75, 89, 90, 91, 92, 93, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150	0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126	8	34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143	0

Normalization procedure for RSSB

1 Step-by-step procedure for converting raw scores into normalised scores

For each test/subject/area for which the examination is held in multiple shifts, the raw score for each candidate appearing for the test/subject is converted into *normalised score* in the following three steps.

Step 1 (Intermediate) Convert raw scores into percentile scores: the percentiles are calculated separately for each shift.

Step 2 (Intermediate) *Pull-back* the percentiles to the *marks scale*: this is done by first collating the data across all sessions into one table, then sorting the records in decreasing (increasing) order of percentiles, and finally filling in the gaps in the raw score table by interpolation.

Step 3 (Final) At the end of the previous step, each percentile value will have a *corresponding raw score value* for each session. This is combined to get the *normalised score*.

This procedure will be done separately for each test/subject/area so that each candidate is assigned a score for each test/subject/area which has been opted for and at the end of this transformation procedure, each candidate will have a normalised score in each such test/subject/area.

The details of each of the three steps mentioned above are given below.

Step 1: Calculation of Percentile Scores: This first step is to be completed *separately for each shift*.

1. Record the number of candidates who have actually appeared in the shift. Denote this number by N .
2. Sort all the candidates in one shift in decreasing order of their marks.
3. Note the *raw marks* for each candidate. Suppose this is denoted by T . Count the number of candidates in that shift whose raw scores are *less than or equal to* T . Denote this number by m .
4. The percentile score for this candidate is then calculated as

$$P = \frac{m}{N}.$$

Note that the percentile so calculated will satisfy $0 \leq P \leq 1$.

5. The percentile P above can be rounded off to the requisite number of decimal places. It is recommended to do it till 8-th places of decimal.

1.1 Illustration

Suppose that the examination in a certain subject is held in two different shifts, $S1$ and $S2$, say. Let us consider six candidates A, B, C, D, E and F out of which A, B, C are from shift $S1$ and the other three are from shift $S2$.

Let the raw marks of the six candidates be x_A, x_B, x_C (shift $S1$ marks) and y_D, y_E, y_F (shift $S2$ marks).

For candidates A, B, C , the percentiles are calculated using the totality of marks obtained by candidates appearing in shift $S1$ (in the same subject) as explained above.

Similarly, for candidates D, E, F , the percentiles are calculated using the totality of marks obtained by candidates appearing in shift $S2$ (in the same subject).

Let the respective percentiles be denoted by $P_A, P_B, P_C, P_D, P_E, P_F$.

We would have a table which would look like the following. The terms in red colour indicate that these are the **output of this step**.

Shift S1			Shift S2		
Candidate	Raw score	Percentile	Candidate	Raw score	Percentile
A	x_A	P_A	D	y_D	P_D
B	x_B	P_B	E	y_E	P_E
C	x_C	P_C	F	y_F	P_F

Since the calculations for percentiles in any shift depends only on the data from that shift alone, in essence, there is a separate table for each shift.

2 Step 2: Sorting the candidates using their percentiles after combining data from all sessions

1. The session-wise data is now to be combined (or concatenated) together.
2. During the concatenation, the separate percentile columns SHOULD be combined to create a single percentile column.

However, the columns for the shift-wise raw score should be kept separate.

The column identifying the candidate can also be combined.

3. All the records are to be sorted in decreasing order of the percentiles.

In the *illustrative example* given in Section 1.1 above suppose that the percentiles of the six candidates satisfy

$$P_E > P_A > P_C = P_F > P_B > P_D.$$

Then the table at the end of this sub-step would look as given below.

Candidate	Percentile	Raw score S1	Raw Score S2
E	P_E	–	y_E
A	P_A	x_A	–
C & F	$P_C = P_F$	x_C	y_F
B	P_B	x_B	–
D	P_D	–	y_D

4. Candidate C from shift S1 and candidate F from shift S2 have the same percentile. The relevant entries under “Raw Score S1” and “Raw Score S2” are the actual raw scores x_C and y_F respectively. ²
5. Candidates A and B, appearing in shift S1, have a blank entry in column “Raw Score S2”, as there is no corresponding candidate having exactly the same percentile from shift S2.
6. Similarly, Candidates D and E, appearing in shift S2, have a blank entry in column “Raw Score S1”, as there is no corresponding candidate having exactly the same percentile from shift S1.
7. In the remaining part of this *Step 2*, the blank entries in the two “Raw Score” columns are to be filled up using linear interpolation. This is achieved as follows.
 - Consider a record (row) whose entry in the column “Raw Score S1” is blank. The blank will be replaced by a score X . We will find the value corresponding to X .
 - For this record or row, let the entry in “Percentile” column be P .
 - Let x_1 denote the first *non-blank* entry BELOW X . i.e. $x_1 < X$ and there is no other non-blank entry in the column between x_1 and X .
 - Let x_2 denote the first *non-blank* entry ABOVE X ³ i.e. $x_2 > X$ and there is no other non-blank entry in the column between X and x_2 .
 - Let p_1 be the entry in the “Percentile” column corresponding to x_1 from the column “Raw Score S1”.

²This has the obvious interpretation that marks x_C of shift S1 are equivalent to marks y_F of shift S2, under this *equipercentile method*.

³There may be several blank entries between x_1 and x_2 .

- Let p_2 be the entry in the “Percentile” column corresponding to x_2 from the column “Raw Score $S1$ ”. Note that P, p_1, p_2, x_1, x_2 are known values and the only unknown is X .
- The **interpolated score X** is then calculated as

$$X = x_1 + \frac{x_2 - x_1}{p_2 - p_1} (P - p_1).$$

8. All the blank entries in column “Raw Score $S1$ ” can now be replaced by the *interpolated values*.

9. The blank entries in column “Raw Score $S2$ ” are also replaced using the similar procedure.

2.1 Illustration (Continued)

At the end of this step, the table in the earlier illustrative example would look like the following, where the entries in **red** indicate the additions or output at the end of this step.

Candidate	Percentile	Raw score $S1$	Raw Score $S2$
E	P_E	X_E	y_E
A	P_A	x_A	Y_A
C & F	$P_C = P_F$	x_C	y_F
B	P_B	x_B	Y_B
D	P_D	X_D	y_D

3 Step 3: Calculation of the normalised score

At the end of the previous step, *there is a score assigned to each percentile value and each session*. The final step is to combine these to come up with a unique **normalised score** for each percentile value and hence *to each candidate*.

Corresponding to any candidate, if the percentile value is P , and corresponding to this value P , if the raw scores for different sessions are $u_1, u_2, \dots, u_t$ (t being the number of different sessions), then the normalised score Z is defined as

$$Z = \text{Average of } (u_1, u_2, \dots, u_t) = \frac{u_1 + u_2 + \dots + u_t}{t}.$$

3.1 Illustration (Continued)

This is once again illustrated through our example. The **final** table would now be as follows, with the final column in **red** denoting the final **normalised score**.

Candidate	Percentile	Raw Score S_1	Raw Score S_2	Normalised Score
E	P_E	X_E	y_E	$(X_E + y_E)/2$
A	P_A	x_A	Y_A	$(x_A + Y_A)/2$
C & F	$P_C = P_F$	x_C	y_F	$(x_C + y_F)/2$
B	P_B	x_B	Y_B	$(x_B + Y_B)/2$
D	P_D	X_D	y_D	$(X_D + y_D)/2$
